



नई दिल्ली | भारत पांच दिसंबर के जोहानसबर्ग में होने वाले पहले 100 वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जैसे ही पहला रन बनागा वह वनडे में सर्वाधिकरन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पीछे छोड़ कर शीर्ष पर कब्जा हो जागा

दलितस्य संयोग है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के नाम पर अभी बराबर 182881 रन दर्ज हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने के मिलता है जबकि दो टीमों ने बराबर रन बनाए हों। इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे में सर्वाधिकरन बनाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।

भारत वैसे अभी तक 841 वनडे मैच खेल चुका है जो कि विश्व रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया ने 825 वनडे मैच खेले हैं। जहां तक मैच जीतने का सवाल है तो ऑस्ट्रेलिया 505 मैचों में जीत दर्ज करके पहले नंबर पर है। भारत ने अभी तक केवल 423 मैच जीते हैं।

पाकिस्तान रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर है। उसने 807 मैचों में 171982 रन बनाए हैं। उसके बाद श्रीलंका (146365 रन) और वेस्टइंडीज (145260 रन) का नंबर आता है। भारत के पूर्वद्वंद्वी दक्षिण अफ्रीका के नाम पर 501 मैचों में 111411 रन दर्ज हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की इस जंग में फलहाल भारत के पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौर में तीन मैच खेलेगी और इसके बाद न्यूजीलैंड के दौर में पांच 100 वनडे मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआत के बाद पांच 100 वनडे मैचों की शुरुआत खेलनी है।

दक्षिण अफ्रीका के दौर में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी दो व्यक्तिगत रिकॉर्ड बना सकते हैं। धोनी कप्तान के रूप में भारत की तरफ से सर्वाधिकरन और सर्वाधिक मैचों में जीत का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं।

धोनी ने अब तक कप्तान के रूप में 151 मैचों में 5213 रन बनाए हैं और वह मोहम्मद अजहरुद्दीन से केवल 26 रन पीछे हैं जिनके नाम पर 174 मैचों में 5239 रन दर्ज हैं। वनडे में कप्तान के रूप में सर्वाधिकरन बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई रिकी पॉटिंग के नाम पर जिनोंने 230 मैचों में 8497 रन बनाए हैं।

यही नहीं भारत यद तीन मैचों के शुरुखला में क्लीन स्वीप करता है तो फिर धोनी भारत के तरफ से सर्वाधिक वनडे मैच जीतने वाले कप्तान बन जाँगे। धोनी ने कप्तान रहते हुए 88 मैच जीते हैं जबकि भारतीय रिकॉर्ड अजहरुद्दीन (90 जीत) के नाम पर है। पॉटिंग इस रिकॉर्ड में भी शीर्ष पर कब्जा है। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 165 मैच जीते हैं।

(भाषा)